

मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)  
म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कं.लि.

# म0प्र0 पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर



कार्यालय  
मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)  
जबलपुर

# मेन्युअल अनुक्रमणिका

क0	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	(अ) कार्यालय का संरचनात्मक गठन (ब) कार्यालय के कार्य एवं दायित्व	01 02, 03
02	अधिकारियों के कर्तव्य (परिलब्धियों सहित)	04,05
03	कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व	06
04	कार्य निष्पादन के मापदण्ड, (समय, गुणवत्ता तथा मात्रा)	07, 08
05	कार्यालय के कार्यों से संबंधित उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेग्यूलेशन, मेन्युअल्स, निर्देश, परिपत्रों की सूची	09
06	कार्यालय में संधारित अभिलेखों की सूची	10, 11
07	परामर्शदात्री समितियों की संरचना (अ) समितियों के नाम, उनकी संरचना, दायित्व एवं कर्तव्य (ब) समितियों के बैठकों का कार्यवाही विवरण	12
08	मंडल, परिषद, समितियों एवं अन्य संस्थाओं की जानकारी	13
09	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी	14,15
10	मासिक परिलब्धियां और सुविधायें	16
11	बजट आवंटन एवं व्यय पत्रक	17
12	कार्यक्रम एवं हितग्राहियों की जानकारी	18
13	हितग्राहियों एवं उन्हें प्राप्त सुविधाओं की सूची	19
14	इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध जानकारीयां	20,21
15	जानकारीयां उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें	22
16	लोक सूचना अधिकारी का विवरण	23
17	अन्य प्रासंगिक जानकारी	24

**(01) (ब) कार्यालय की प्रत्येक इकाई/अनुभाग के कार्य एवं दायित्व**

सरल क्र०	इकाई/ अनुभाग का नाम	इकाई/ अनुभाग का कार्य
1	2	3
(I)	प्रशासनिक अनुभाग	<p>(i) इस कार्यालय से संबंधित समस्त स्थापना संबंधी कार्यों का सम्पादन एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती संधारण करना।</p> <p>(ii) स्थापना संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु कार्यवाही करना।</p> <p>(iii) अन्य कार्यालयों द्वारा समय-समय पर चाही गई स्थापना एवं न्यायालयीन प्रकरणों संबंधी जानकारियां संकलित कर प्रेषित करना।</p> <p>(iv) अंकेक्षण अधिकारी के प्रतिवेदनों का उत्तर समयावधि में तैयार कर उनके कार्यालयों को प्रेषित करना।</p>

(01) (ब) कार्यालय की प्रत्येक इकाई/अनुभाग के कार्य एवं दायित्व

सरल क्र०	इकाई/ अनुभाग का नाम	इकाई/ अनुभाग का कार्य
1	2	3
( II)	तकनीकी अनुभाग	<p>(i) ट्रांसमिशन परफार्मेंस से संबंधित कार्य ।</p> <p>(ii) भार प्रबंधन संबंधी सभी कार्यों का संपादन एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।</p> <p>(iii) दीर्घ अवधि ओपन एक्सेस से संबंधित कार्यों का संपादन एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।</p> <p>(iv) विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का क्रियान्वयन एवं पालन करना तथा तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।</p> <p>(v) संचालन एवं समन्वय समिति से संबंधित कार्य एवं तत्संबंधी निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।</p> <p>(vi) पश्चिम क्षेत्र विद्युत समिति एवं उच्चदाब उपकेंद्रों से संबंधित कार्यों का संपादन करना एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।</p> <p>(vii) विधानसभा/ राज्यसभा/लोकसभा सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तरों एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां राज्य शासन को समयावधि में उपलब्ध कराना एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।</p> <p>(viii) विद्युत उत्पादन केंद्रों से पावर की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली के निर्माण से संबंधित लोड फ्लो, फाल्ट लेवल एवं सिस्टम स्टेबिलिटी का अध्ययन, पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं पावर ग्रिड उपकेंद्रों से अंतर्संबंध हेतु अध्ययन। नये अति उच्चदाब उपकेंद्रों के निर्माण की साध्यता संबंधी अध्ययन/अ.द.दा. उपभोक्ता, ताप विद्युत जल विद्युत एवं गैर परंपरागत स्रोत आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों की पारेषण प्रणाली से संबद्धता संबंधी अध्ययन/ के.वि.प्रौधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति, पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केंद्र, एवं पावर ग्रिड कार्पोरेशन से संबंधित कार्य ।</p> <p>(ix) ऊर्जा अंकेक्षण अनुभाग, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा विद्युत पारेषण प्रणाली में विभिन्न वोल्टेज स्तर पर पारेषित विद्युत पर होने वाले ट्रांसमिशन लॉस (पारेषण हानि) की माहवार गणना करना तथा विभिन्न उच्चदाब उपकेंद्रों से विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय की जाने वाली विद्युत ऊर्जा के पावर फेक्टर की गणना मासिक आधार पर कर, क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को समय-समय पर उचित कार्यवाही हेतु सूचित करना.</p>

(2) कार्यालय में पदस्थ प्रत्येक अधिकारी का कार्य विवरण  
धारा 4.1 (b) (ii) के अंतर्गत  
(दिनांक 01.10.2021 को अद्यतन)

सं. क्र०	नाम	पदनाम	परिलब्धियां (मूलवेतन)	कर्तव्य
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुलश्रेष्ठ	मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) वर्तमान प्रभार	रु.215900 / - प्रतिमाह	योजना एवं रूपांकन से संबंधित समस्त कार्यों के संपादन एवं भार प्रवाह प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य, लोक सूचना से संबंधित कार्य, 'स्थापना' अनुभाग के कार्यों का क्रियान्वयन कराना। संचालन एवं समन्वय समिति से संबंधित कार्य। दीर्घ अवधि ओपन एक्सेस से संबंधित कार्य, न्यायालयीन प्रकरण के कार्य। विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का क्रियान्वयन एवं पालन करना। उपकेंद्रों के निर्माण हेतु प्रॉक्कलन एवं पारेषण लाइनों के प्रॉक्कलन से संबंधित कार्य। 2.विधान सभा सत्र से संबंधित कार्य।
2	श्री डी.के गुप्ता	अधीक्षण अभियंता	रु.209600 / - प्रतिमाह	योजना , विधानसभा/लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित सभी कार्य।
3	श्री एम.एम.ढोके	अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार)	रु.215.900 / - प्रतिमाह	विद्युत उत्पादन केन्द्रों से पावर की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली के निर्माण से संबंधित लोड फ्लो, फाल्ट लेवल एवं सिस्टम स्टेबिलिटी का अध्ययन पध्दति कार्य, पारेषण के सुदृढीकरण हेतु अध्ययन एवं एसटीयू से संबंधित कार्य।
4	श्री देवाशीष चक्रवर्ती	अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार)	रु.215.900 / - प्रतिमाह	रूपांकन एवं स्थापना से संबंधित समस्त कार्य।
5	श्री लोकेश द्विवेदी	कार्य. अभियंता (चालू प्रभार)	रु.135200 / - प्रतिमाह	1. नये अति उच्च दाब उपकेन्द्रों के निर्माण की साध्यता संबंधी अध्ययन / अ.द.दा उपभोक्ता, ताप विद्युत जल विद्युत एवं गैर परंपरागत स्रोत आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों की पारेषण प्रणाली से संबद्धता संबंधी अध्ययन / के.वि. प्राधिकरण, पश्चिम क्षेत्रिय विद्युत समितिद्व पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र एवं पावर ग्रिड कार्पोरेशन से संबंधित कार्य। विद्युत बढ़ाये जाने संबंधी उच्चदाब उपभोक्ताओं को प्रकरण संबंधी पत्राचारद्व कैप्टिव पावर, पवन उर्जा, सौर उर्जा एवं बायोमास विद्युत उत्पादन संयंत्रों के म.प्र.द्रों क. लिमि. से संबद्धता संबंधी पत्राचार। पश्चिम क्षेत्रिय विद्युत कमेटी (डब्ल्यू आर.पीसी) को म.प्र. में स्थित सभी उच्च विभव उपकेन्द्रों में स्थापित नये कैपेसिटर बैंकों से संबंधित पत्राचार। शार्ट टर्म ओपन ऐक्सिस के तहत गैर परंपरागत उर्जा
6	श्री सौरभ सोनी	सहायक अभियंता	रु.75800 / - प्रतिमाह	
7.	अमित कुमार पाण्डे	कनिष्ठ अभियंता	रु. 31000 / -	

1	2	3	4	5
8	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी	कार्यपालन अभियंता	रु. 135200 / – प्रतिमाह	स्रोतों की संबद्धता संबंधी पत्राचार। एस.टी.यू तथा टीबीसीबी कार्य से संबंधित समन्वय कार्य आदि।
9	श्रीमती बबीता गजभिये	कार्यपालन अभियंता	रु.123800 / – प्रतिमाह	पद्धति की आवृत्ति से संबंधित कार्य। संभरकों के विभक्तिकरण से संबंधित कार्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत समिति से संबंधित कार्य। संचालन एवं समन्वय समिति से संबंधित कार्य। ट्रांसमिशन परफार्मेंस से संबंधित कार्य, सप्लाय अफोर्डिंग चार्जस से संबंधित कार्य। पी.टी.सी.सी. प्रस्ताव तैयार करना।
10	श्रीमती अंजना ठाकुर,	सहायक अभियन्ता (चालू प्रभार)	रु. 127500 / – प्रतिमाह	ऊर्जा अंकेक्षण अनुभाग, म.प्र.पां.ट्रां.कं.लिमिटेड के द्वारा विद्युत पारेषण प्रणाली में विभिन्न वोल्टेज स्तर पर पारेषित विद्युत पर होने वाले ट्रांस. लॉस (पारेषण हानि) की माहवार गणना करना तथा विभिन्न उच्चदाब उपकेंद्रों से विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय की जाने वाली विद्युत ऊर्जा के पावर फेक्टर की गणना मासिक आधार पर कर, क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को समय-समय पर उचित कार्यवाही हेतु सचित करना.
11	श्री आर एस. पाण्डेय	कार्यपालन अभियंता (योजना-1)	रु.197600 / – प्रतिमाह	म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. की पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना बनाने का कार्य एवं उनकी समीक्षा। वार्षिक पारेषण कार्यक्रम बनाना एवं उसकी समीक्षा। पारेषण कार्यों हेतु 'इनवेस्टमेंट प्लान' बनाना। आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना संबंधी कार्यों की समीक्षा। योजना आयोग एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विभिन्न जानकारियां प्रेषित करना। पारेषण प्रणाली संबंधी समकों की जानकारी बनाने का कार्य। म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. के वित्तीय संसाधनों की गणना कर योजना आयोग को प्रेषित करने संबंधी कार्य। वार्षिक पावर सर्वे से संबंधित कार्य। उत्पादन केंद्रों से विद्युत की निकासी संबंधी कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय कार्यों की प्रगति की जानकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित करना। माननीय मुख्यमंत्री मानीटरिंग कार्यों की मासिक प्रगति की जानकारी ऊर्जा विभाग को प्रेषित करना एवं ऊर्जा विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करना। एमआईएस से संबंधित त्रैमासिक जानकारी प्रेषित करना। पारेषण कार्यों की सूचना स्टेट गजट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन संबंधी कार्य। उत्पादन क्षमता वृद्धि योजनाओं के अनुरूप दीर्घकालिक अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा एवं उच्चतम भार की उपलब्धता का आंकलन। प्रदेश में दीर्घकालिक अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता का उपभोक्ता श्रेणीवार आंकलन एवं केंद्रीय विद्युत

1	2	3	4	5
				प्राधिकरण को ऊर्जा सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट प्रेषित करने का कार्य। वर्ष के दौरान आहूत होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा सत्रों एवं लोकसभा व राज्यसभा सत्रों के दौरान प्राप्त होने वाले प्रश्नों, सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों, कटौती प्रस्तावों इत्यादि के प्रत्युत्तर बनाने का कार्य। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रदेश शासन के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले संदर्भों का निराकरण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा की गई धोषणाओं की समीक्षा एवं प्रतिवेदन प्रेषित करने संबंधी कार्य। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं एवं व्ही.आई.पी. संदर्भों में निहित अति उच्चदाब उपकेंद्रों हेतु राज्य शासन से सहायता राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने का कार्य।
12	श्री एच. एल. पटेल	सहा.अभियंता (चालू प्रभार	रु.123800 / – प्रतिमाह	उत्पादन क्षमता वृद्धि योजनाओं के अनुरूप दीर्घकालिक अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा एवं उच्चतम भार की उपलब्धता का आंकलन। प्रदेश में दीर्घकालिक अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता का उपभोक्ता श्रेणीवार आंकलन एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को ऊर्जा सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट प्रेषित करने का कार्य। वर्ष के दौरान आहूत होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा सत्रों एवं लोकसभा व राज्यसभा सत्रों के दौरान प्राप्त होने वाले प्रश्नों, सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों, कटौती प्रस्तावों इत्यादि के प्रत्युत्तर बनाने का कार्य। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रदेश शासन के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले संदर्भों का निराकरण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा की गई धोषणाओं की समीक्षा एवं प्रतिवेदन प्रेषित करने संबंधी कार्य। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं एवं व्ही.आई.पी. संदर्भों में निहित अति उच्चदाब उपकेंद्रों हेतु राज्य शासन से सहायता राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने का कार्य।
13	श्री मुकेश चन्द जैन	कनिष्ठ अभियंता	रु.123800 / – प्रतिमाह	
14	श्री एम.डी.पालन्दे	कार्यपालन अभियंता	रु.156800 / – प्रतिमाह	1(अ) उपकेंद्रों में किये जाने वाले कार्यों के प्राक्कलन तैयार करना एवं उसका अनुमोदन करना। 1(ब) डिपॉजिट कार्य के लिये भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही करना, उपकेंद्रों के सुपरविजन का कार्य, रूपांकन का कार्य आदि। 2. मैदानी अधिकारियों के निवेदन पर प्राक्कलन की पुननिरीक्षण कर कंप्लीशन रिपोर्ट की कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
15	श्रीमती श्रद्धा तिवारी	सहा. अभियंता	रु.87900 / – प्रतिमाह	

16	श्री व्ही.के.परवार	कार्यपालन अभियंता	रु. 203500 /- प्रतिमाह	पारेषण लाइनों का प्रॉक्कलन तैयार कर अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना। उपभोक्ताओं द्वारा जमा सहभागिता कार्यों में व्यय राशि प्राप्त कर प्रॉक्कलन स्वीकृत करना।
17	श्री पारसनाथ झा	सहा.अभियंता	रु. 67000 /- प्रतिमाह	उपभोक्ताओं के प्रकरणों पर मासिक कार्य प्रगति की मॉनिटरिंग करना। रूट मैप, प्रोफाइल राशि विवरण आदि की पंजी का रख-रखाव करना आदि।
18	श्री राजीव अदलखा	सहा.अभियंता	रु. 127500 /- प्रतिमाह	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, बैंक ऋण, राज्य सरकार डेटा/ जानकारी अपलोड, आर.ई.सी से संबंधित कार्य आदि।
19	श्रीमति क्षमा शुक्ला	सहा.अभियंता	रु. 90,500 /- प्रतिमाह	

### (03) कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया धारा 4.1(b) (III) के अंतर्गत

मध्य प्रदेश विद्युत प्रणाली में लंबी अवधि हेतु ओपन एक्सेस का प्रावधान



इस व्यवस्था के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ता माननीय म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किसी भी विद्युत उत्पादन/वितरण संस्था से विद्युत की खरीद-फरोख्त कर सकता है। उक्त हेतु आवेदक को स्थापित मापदण्डों के अनुरूप नोडल अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।



आवेदन पंजीकरण एवं नस्ती तैयार करना।



आवेदन के 3 दिन के अंदर प्रकरण संबंधित पारेषण एवं वितरण कंपनियों के प्रणाली अध्ययन प्रकोष्ठों को परीक्षण हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।



अध्ययन प्रकोष्ठ प्रकरण संबंधी अनुशंसा नोडल अधिकारी को 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा देंगे।



नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन के 30 दिन के अंदर ओपन एक्सेस की वस्तुस्थिति की जानकारी आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी कि :-

**क.** ओपन एक्सेस प्रणाली के उन्नयन/सुदृढीकरण के बिना ही उपलब्ध कराया जा सकता है।

**या**

**ख.** ओपन एक्सेस हेतु प्रणाली उन्नयन/सुदृढीकरण की आवश्यकता है। उक्त स्थिति में आवेदक नोडल अधिकारी से प्रणाली उन्नयन/सुदृढीकरण कार्य का विस्तृत विवरण, प्रॉक्कलन का अनुमान, पूर्ण होने की अवधि इत्यादि के परीक्षण हेतु निवेदन कर सकता है। उक्त निवेदन पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर 45 दिन के अंदर वस्तुस्थिति की जानकारी आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी।



तदोपरान्त, माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ओपन एक्सेस की अनुमति प्रदान की जाएगी।



**(04) कार्यों के निष्पादन के मापदण्ड**  
**(समय, गुणवत्ता, मात्रा)**

**धारा 4.1 (b) (iv) के अंतर्गत**

गतिविधि/ कार्य	समय का मापदण्ड	गुणवत्ता का मापदण्ड	मात्रा (एक वर्ष में किये जाने वाले कार्यालयीन कार्य)
1	2	3	4
<b>( I ) प्रशासनिक अनुभाग</b>			
(i) इस कार्यालय से संबंधित समस्त स्थापना संबंधी कार्यों का सम्पादन एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती संधारण करना ।	—	—	—
(ii) स्थापना संबंधित प्राप्त न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु कार्यवाही करना ।	3 दिवस	—	आवश्यकतानुसार
(iii) अन्य कार्यालयों द्वारा समय-समय पर चाही गई स्थापना एवं न्यायालयीन प्रकरणों संबंधी जानकारियां संकलित कर प्रेषित करना ।	—	—	—

(04) कार्यों के निष्पादन के मापदण्ड  
(समय, गुणवत्ता, मात्रा)  
धारा 4.1 (b) (iv) के अंतर्गत

गतिविधि/ कार्य	समय का मापदण्ड	गुणवत्ता का मापदण्ड	मात्रा (एक वर्ष में किये जाने वाले कार्यालयीन कार्य)
1	2	3	4
<b>(II) तकनीकी अनुभाग</b>			
(i) पद्धति संचालन संबंधी सभी कार्यों का संपादन एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।	15 दिन	—	निर्धारित समयावधि से अधिक समय लग सकता है यदि जानकारी अन्य कार्यालयों से अपेक्षित हो ।
(iii) दीर्घ अवधि ओपन एक्सेस से संबंधित कार्यों का संपादन एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।			
(pv) विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का क्रियान्वयन एवं पालन करना तथा तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।			
(v) संचालन एवं समन्वय समिति से संबंधित कार्य एवं तत्संबंधी निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना । ट्रांसमिशन परफार्मेंन्स संबंधी कार्य, सप्लाइ अफोर्डिंग चार्ज से संबंधित कार्य, आरटीआई से संबंधित कार्य ।	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
(vi) अति उच्चदाब उपकेंद्रों से प्राप्त आंकड़ों का संकलन एवं तुलनात्मक अध्ययन एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
(vii) विधानसभा/राज्यसभा/लोकसभा सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तरों एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां राज्य शासन को समयावधि में उपलब्ध कराना एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती का संधारण करना ।	—तत्काल—	—तदैव—	—तत्काल—
(viii) ऊर्जा अंकेक्षण अनुभाग, म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा विद्युत पारेषण प्रणाली में विभिन्न वोल्टेज स्तर पर पारेषित विद्युत पर होने वाले ट्रांसमिशन लॉस (पारेषण हानि) की माहवार गणना करना तथा विभिन्न उच्चदाब उपकेंद्रों से विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय की जाने वाली विद्युत ऊर्जा के पावर फेक्टर की गणना मासिक आधार पर कर, क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को समय-समय पर उचित कार्यवाही हेतु सचित करना.	15दिन	---	—तदैव—

1	2	3	4
<p>(ix) विद्युत उत्पादन केंद्रों से पावर की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली के निर्माण से संबंधित लोड फ्लो, फाल्ट लेवल एवं सिस्टम स्टेबिलिटी का अध्ययन, पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं पावर ग्रिड उपकेंद्रों से अंतर्संबंध हेतु अध्ययन। नये अति उच्चदाब उपकेंद्रों के निर्माण की साध्यता संबंधी अध्ययन/अ.द.दा. उपभोक्ता, ताप विद्युत जल विद्युत एवं गैर परंपरागत स्रोत आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों की पारेषण प्रणाली से संबद्धता संबंधी अध्ययन/ के.वि.प्राधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति, पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केंद्र, एवं पावर ग्रिड कार्पोरेशन से संबंधित कार्य। विद्युत भार बढ़ाये जाने संबंधी उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण संबंधी पत्राचार, कैप्टिव पावर, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं बायोमास विद्युत उत्पादन संयंत्रों के म.प्र.ट्रां.कं.लि. से संबद्धता संबंधी पत्राचार। पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत कमेटी (डब्ल्यू.आर.पी.सी.) को म.प्र. में स्थित सभी उच्च विभव उपकेंद्रों में स्थापित नये कैपेसिटर बैंकों से संबंधित पत्राचार। शार्ट टर्म ओपन ऐक्सिस के तहत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की संबद्धता संबंधी पत्राचार।</p>	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
<p>(x) म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि.की पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना बनाने का कार्य एवं उनकी समीक्षा। वार्षिक पारेषण कार्यक्रम बनाना एवं उसकी समीक्षा। पारेषण कार्य हेतु 'इनवेस्टमेंट प्लान' बनाना। माननीय विद्युत नियामक आयोग को प्रेषित की जाने वाली जानकारियां सी.आर.ए.सेल को उपलब्ध कराना। आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना संबंधी कार्य की समीक्षा। योजना आयोग एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विभिन्न जानकारियां प्रेषित करना। पारेषण प्रणाली संबंधी समकों की जानकारी बनाने का कार्य। उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य।</p>	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
<p>(xi) म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि.के वित्तीय संसाधनों की गणना कर योजना आयोग को प्रेषित करने संबंधी कार्य। वार्षिक पावर सर्वे से संबंधित कार्य। उत्पादन केंद्रों से विद्युत की निकासी संबंधी कार्य की भौतिक एवं वित्तीय कार्य की प्रगति की जानकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित करना। माननीय मुख्यमंत्री मानीटरिंग कार्य की मासिक प्रगति की जानकारी ऊर्जा विभाग को प्रेषित करना एवं ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना। एमआईएस से संबंधित त्रैमासिक जानकारी प्रेषित करना। पारेषण कार्य की सूचना स्टेट गजट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन संबंधी कार्य। विभिन्न बैठकों से संबंधित जानकारी बनाना पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन बनाना। उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य।</p>	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
<p>(xi) उत्पादन क्षमता वृद्धि योजनाओं के अनुरूप दीर्घकालिक अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा एवं उच्चतम भार की उपलब्धता का आंकलन। प्रदेश में दीर्घकालिक अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता का उपभोक्ता श्रेणीवार आंकलन एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को ऊर्जा सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट प्रेषित करने का कार्य। वर्ष के दौरान आहूत होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा सत्रों एवं लोकसभा व राज्यसभा सत्रों के दौरान प्राप्त होने वाले प्रश्नों, सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों, कटौती प्रस्तावों इत्यादि के प्रत्युत्तर बनाने का कार्य। विधानसभा सत्रों के दौरान निर्मित आश्वासनों की समीक्षा संबंधी कार्य। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रदेश शासन के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले संदर्भों का निराकरण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा एवं प्रतिवेदन प्रेषित करने संबंधी कार्य। विभिन्न अवसरों पर महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं ऊर्जामंत्री के भाषणों हेतु विभागीय टीप प्रेषित करने संबंधी कार्य। मान. मुख्यमंत्री एवं ऊर्जामंत्री महोदय द्वारा ली गई विभिन्न समीक्षा बैठकों में लिये गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने का कार्य। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं एवं व्ही.आई.पी. संदर्भों में निहित अति उच्चदाब उपकेंद्रों हेतु राज्य शासन से सहायता राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने का कार्य। ऊर्जा विभाग द्वारा मांगी जाने वाली विभिन्न प्रकार की जानकारी का संप्रेषण। उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य।</p>	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-

**(05). कार्यालय के कार्यों से संबंधित उपलब्ध  
अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मेन्यूअल्स, परिपत्रों की सूची  
धारा 4.1 (b) (v) के अंतर्गत**

	(I) स्थापना अनुभाग	(II) ऊर्जा पद्धति अनुभाग
1. अधिनियम	1. म.प्र.सिविल सेवा अधिनियम 1958 2. म.प्र.आचार संहिता अधिनियम 1958	विद्युत अधिनियम-2003
2. नियम	1. फण्डामेंटल नियम, म0प्र0शासन	आई.ई.जी.सी. (इंडियन इले. ग्रिडकोड) एम.पी.ई.जी.सी. (एम.पी. इले. ग्रिडकोड) 1. म.प्र.हाइकोर्ट नियम एडवोकेट की फीस के भुगतान बावत ।
3. रेग्यूलेशन	—	एम.पी.ई.आर.सी. (ट्रांसमिशन परफारमेन्स स्टेण्डर्ड) रेग्यूलेशन-2004 एवं एम. आई.एस. रेग्यूलेशन 2004 और उनके संशोधन, एम.पी.ई.आर.सी. (म.प्र. में राज्याभ्यंतर (Intra-State) ओपन एक्सेस के लिए नियम एवं शर्तों) रेग्यूलेशन-2005.
4. मेन्यूअल्स	1. केश एकाउण्टिंग प्रक्रिया के निर्देश (1976) 2. डेलीगेशन आफ पावर मेन्यूअल	
5. परिपत्र	1. स्थाई आदेशों एवं परिपत्रों का सार संग्रह सन 1988 से अभी तक.	

(06). कार्यालय में संधारित विभिन्न श्रेणी के अभिलेखों की सूची

धारा 4.1 (b) (vi) के अंतर्गत

सरल क्रमांक	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार (माइक्रोफिल्म, रजिस्टर, किताब, डिस्क आदि)	अभिलेख की प्रकृति एवं विषय वस्तु	अभिलेख की अवधि
1	2	3	4	5
<b>(I) स्थापना अनुभाग</b>				
01	संपत्ति पंजी	रजिस्टर	संपत्ति का विवरण (फर्नीचर एवं अन्य सामग्री) (सामान्य)	10.03.89 से निरंतर
02	यात्रा भत्ता पंजी	रजिस्टर	यात्रा भत्ता देयकों की स्वीकृति/समायोजन (सामान्य)	10/1988 से निरंतर
03	चिकित्सा बिल पंजी	रजिस्टर	चिकित्सा देयकों के भुगतान की स्वीकृति (सामान्य)	01.04.90 से निरंतर
04	जी.पी.एफ. पंजी	रजिस्टर	जी.पी.एफ.आवेदन अग्रेषित करना (सामान्य)	वर्ष-1994 से निरंतर
05	मोबाइल/ बिल पंजी	रजिस्टर	मोबाइल के भुगतान की स्वीकृति (सामान्य)	5/2003 से 11/2008
06	आकस्मिक अवकाश पंजी	रजिस्टर	अवकाश का विवरण हेतु (सामान्य)	01.01.94 से निरंतर
07	उपस्थिति पंजी	रजिस्टर	प्रतिदिन की उपस्थिति का विवरण(सामान्य)	वर्ष-1.1.94 से निरंतर
08	केश बुक पंजी	रजिस्टर	रोकड़ का विवरण (सामान्य)	21.07.88 से निरंतर
09	इम्प्रेस्ट पंजी	रजिस्टर	रोकड़ खर्च का विवरण (सामान्य)	18.07.88 से निरंतर
10	लोकल परचेस पंजी	रजिस्टर	खरीदी/प्रदाय सामग्री की प्रविष्टि (सामान्य)	24.09.94 से निरंतर
11	चैक प्राप्ति पंजी	रजिस्टर	धनादेशों का क्रमवार अंकन (सामान्य)	21.07.88 से निरंतर
12	लेखन सामग्री पंजी	रजिस्टर	सामग्री प्रदाय संबंधी प्रविष्टि अंकन (सामान्य)	19.07.88 से निरंतर
13	आवक पंजी	रजिस्टर	प्राप्त पत्रों का क्रमवार अंकन (सामान्य)	15.07.88 से निरंतर
14	जावक पंजी	रजिस्टर	भेजने वाले पत्रों का क्रमवार अंकन (सामान्य)	16.07.88 से निरंतर
15	डाक टिकिट खरीदी/जारी पंजी	रजिस्टर	डाक टिकिट की खरीदी/ खर्च का विवरण (सामान्य)	21.07.88 से निरंतर
16	यू.ओ.आवक पंजी	रजिस्टर	प्राप्त पत्रों का क्रमवार अंकन (सामान्य)	15.07.88 से निरंतर
17	यू.ओ.जावक पंजी	रजिस्टर	भेजने वाले पत्रों का क्रमवार अंकन (सामान्य)	16.07.88 से निरंतर
18	गोपनीय आवक पंजी	रजिस्टर	प्राप्त पत्रों का क्रमवार अंकन (गोपनीय)	26.05.94 से निरंतर
19	गोपनीय जावक पंजी	रजिस्टर	भेजने वाले पत्रों का क्रमवार अंकन (गोपनीय)	26.05.94 से निरंतर
20	गोपनीय यू.ओ.नोट आवक	रजिस्टर	प्राप्त पत्रों/भेजने वाले पत्रों का क्रमवार अंकन (गोपनीय)	26.05.94 से निरंतर

(6) कार्यालय में संधारित विभिन्न श्रेणी के अभिलेखों की सूची  
धारा 4.1 (b) (vi) के अंतर्गत

(i) तकनीकी अनुभाग

क्र.	विवरण	आवृत्ति	अवधि
1	पद्धति संचालन से संबंधित आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण जैसे कि ट्रांसफार्मर पारेषण लाईनों आदि.	माहवार / वार्षिक	पांच वर्षों की

(07) परामर्शदात्री समितियों की संरचना  
(जिनके सदस्य जन प्रतिनिधि हैं)  
धारा 4.1(b)(vii) के अंतर्गत

(अ) समितियों के नाम, उनका गठन, दायित्व एवं कर्त्तव्य

निरंक

(ब) समितियों की बैठकों का कार्यवाही विवरण

निरंक

(08) कार्यालय के अंतर्गत आने वाले मंडल, परिषदों, समितियों  
एवं अन्य संस्थाओं की जानकारी  
धारा 4.1 (b) (viii) के अंतर्गत

सरल क्रमांक	संस्था का नाम	सदस्यों के नाम	अर्हता
1	2	3	4
		निरंक	



**(09) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी**  
**(कोषालय / क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, म.प्र.पॉवर ट्रांस.कं.लि. के डाटा बैंक से संबद्ध किया जावेगा)**  
**धारा 4.1 (बी)(ix) के अंतर्गत**

दिनांक 01.08.2020 को अद्यतन

सरल क्र०	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	पता एवं दूरभाष क्रमांक (यदि हो तो)	
01	श्री संजय कुलश्रेष्ठ	मुख्य अभियन्ता (यो. एवं ऊर्जा पद्धति) वर्तमान प्रभार	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2660908 (कार्या) 2702242 (पीएस) 2702132 (कार्या)
02	श्री डी. के. गुप्ता	अधी.यंत्री (चालू प्रभार)	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702290 (कार्या)
03	श्री एम.एम.ढोके	अधी.यंत्री (चालू प्रभार)	ब्लॉक नं.3, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702180 (कार्या)
04	श्री देवाशीष चक्रवर्ती	अधी.यंत्री (चालू प्रभार)	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702175 (कार्या)
05	श्री व्ही.के.परवार	कार्य.यंत्री	ब्लॉक नं.3, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702160(कार्या)
06	श्री आर. एस. पाण्डेय	कार्यपालन यंत्री	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702232 (कार्या)
07	श्री एम.डी.पालन्दे	कार्यपालन यंत्री	ब्लॉक नं.3, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702157(कार्या)
08	श्रीमती बबीता गजभिये	कार्य.यंत्री	ब्लॉक नं.3, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702248 (कार्या)
09	श्री लोकेष द्विवेदी	कार्य.यंत्री (चालू प्रभार)	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702187 (कार्या)
10	श्री मनोज त्रिपाठी	सहायक यंत्री	ब्लॉक नं.3, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702253 (कार्या)
11	श्री राजीव अदलखा	सहायक यंत्री	ब्लॉक नं.3, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702187 (कार्या)
12	श्री सौरभ सोनी	सहायक यंत्री	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702196 (कार्या)
13	श्रीमति क्षमा शुक्ला	सहायक यंत्री	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702196 (कार्या)
14	श्रीमती श्रद्धा तिवारी	सहायक यंत्री	ब्लॉक नं.3, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702119 (कार्या)
15	श्री पारसनाथ झा	सहायक यंत्री	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702163 (कार्या)
16	श्रीमती अंजना ठाकुर	सहा.यंत्री (चालू प्रभार)	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702254 (कार्या)
17	एच.एल. पटेल	सहायक यंत्री	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702112 (कार्या)
18	मुकेश चन्द जैन	सहायक अभियंता (योजना- I)	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702112 (कार्या)
19	श्री अमित कुमार पाण्डे	कनिष्ठ अभियंता	ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर	2702196 (कार्या)

(09) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी  
(कोषालय/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पॉवर ट्रांस.कं.लि. के डाटा बैंक से संबद्ध किया जावेगा)  
धारा 4.1 (बी)(ix) के अंतर्गत

स क्र०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	पता एवं दूरभाष क्रमांक (यदि हो तो)
1	श्रीमती लीलावती झारिया	अनुभाग अधिकारी (चालू प्रभार)	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर 2702249
2	श्रीमती मधुमिता मुखर्जी	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
3	श्रीमती विमला दुबे	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
4	श्री आर.के.विश्वकर्मा	अति.वरिष्ठ शीघ्रलेखक	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
5	श्री पी.के.पट्टेवार	अति.वरिष्ठ शीघ्रलेखक	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
6	श्री राकेश पाठक	अति.वरिष्ठ शीघ्रलेखक	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
7	श्रीमती माया जैन	अति.वरिष्ठ शीघ्रलेखक	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
8	श्री ताज मोहम्मद	कार्या0सहा0श्रेणी-तीन	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
9	श्रीमती गीता भट्टाचार्य	कार्या0सहा0श्रेणी-तीन	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
10	श्री एस.के.चौकसे	कार्या0सहा0श्रेणी-तीन	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
11	श्रीमती सुनीता टोले	कार्या0सहा0श्रेणी-तीन	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
12	श्री अजेश कुमार तिवारी	कार्या0सहा0श्रेणी-तीन	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
13	श्री सकरिया पी.आई.	कार्या0सहा0श्रेणी-तीन	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
14	श्रीमती रीति शुक्ला	कार्या.सहा.श्रे.3 (संविदा)	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
15	आफरीन अली	कार्या.सहा.श्रे.3 (संविदा)	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
16	नितेश रंगारे	कार्या0सहायक (संविदा)	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
17	श्री आनंद तिवारी	मानचित्रकार	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
18	एम.के.उपाध्याय	मानचित्रकार	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
19	श्री ए.के.चौबे	सहा.मानचित्रकार	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
20	श्री जी.एस.दुबे	सहा.मानचित्रकार	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
21	श्री एम.एस.अंसारी	सहा.मानचित्रकार	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
22	श्री आर.एस.राजपूत	सहा.मानचित्रकार	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
23	श्री मकरंद कुलकर्णी	वरि.परीक्षण सहायक	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
24	श्री आर.के.गुप्ता	वरि.परीक्षण सहायक	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
25	श्री आबिद खान	भृत्य	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
26	श्री संजीव कुमार वर्मा	भृत्य	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
27	श्री रामकुमार पटेल	भृत्य	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
28	श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव	भृत्य	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
29	श्री रामदरश कुशवाहा	भृत्य	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
30	श्री छोटेलाल पटेल	भृत्य	ब्लॉक न.3 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
31	श्री रोहिणीप्रसाद पाठक	भृत्य	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
32	श्री अखिलेश नंदन तिवारी	ला.परि.श्रेणी-2	ब्लॉक न.2 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर

(10) मासिक परिलब्धियां एवं सुविधायें  
धारा 4.1 (बी) (ख) के अंतर्गत

सरल क्रमांक	नाम एवं पदनाम	परिलब्धियां (मूल वेतन रु. प्रतिमाह) *	सुविधायें
1	2	3	4
1	श्री संजय कुलश्रेष्ठ, मुख्य अभियंता	रु.209600 /—	
2	श्री प्रदीप सचान, अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार)	रु. 209600 /—	
3	श्री एम.एम.ढोके, अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार)	रु. 209600 /—	
4	श्री देवाशीष चक्रवर्ती, अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार)	रु. 209600 /—	
5	श्री आर.सी.चक्रवर्ती, कार्य.अभियंता	रु. 203500 /—	
6	श्री आर.एस.पाण्डेय, कार्य.अभियंता	रु. 176400 /—	
7	श्री व्ही.के.परवार, कार्य.अभियंता	रु 181700 /—	
8	श्री एम.डी.पालन्दे, कार्य.अभियंता	रु 147800 /—	
9	श्रीमती बबीता गजभिये, कार्य.अभियंता	रु 105000 /—	
10	श्री लोकेश द्विवेदी, कार्य.अभियंता (चालू प्रभार)	रु. 127500 /—	
11	श्री मनोज त्रिपाठी, सहा.अभियंता	रु 127500 /—	
12	श्री राजीव अदलखा, सहा.अभियंता	रु 127500 /—	
13	श्री हितेश तिवारी, सहा.अभियंता	रु 82800 /—	
14	श्रीमती श्रद्धा तिवारी, सहा.अभियंता	रु 82800 /—	
15	श्री सौरभ सोनी, सहा.अभियंता	रु 69000 /—	
16	श्री नितिन सोनी, सहा.अभियंता	रु 82800 /—	
17	श्री पारसनाथ झा, सहायक अभियंता	रु 63100 /—	
18	श्रीमती अंजना ठाकुर, सहा.अभियंता (चा.प्र.)	रु 127500 /—	
19.	श्री एच.एल.पटेल, सहा.अभियंता (चा.प्र.)	रु 123800 /—	

\* भत्ते अलग से

(11) वार्षिक बजट आवंटन एवं व्यय पत्रक  
(कोषालय/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पॉवर ट्रांस.कं.लि. से संबद्ध किया जावेगा)  
धारा 4.1 (b)(iv) के अंतर्गत

सरल क्रमांक	बजट मद	कार्य का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
01	प्रशासनिक व्यय	कार्यालय के दैनंदिनी प्रशासनिक व्यय हेतु ।	2020-21	वास्तविक	40.21 लाख

**(12) कार्यक्रमों एवं हितग्राहियों की सूची**  
**धारा 4.1(b)(xii) के अंतर्गत**

- (अ) कार्यक्रमों की सूची ( इलेक्ट्रानिक फार्म में)
- (ब) हितग्राहियों के चयन का मापदण्ड  
(परिपत्र का मूल पाठ— इलेक्ट्रानिक फार्म में)
- (स) विस्तृत जानकारी

सरल क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	प्रशासनिक विभाग	वर्ष	आवंटित राशि	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
- लागू नहीं -					

(13) हितग्राहियों की सूची एवं सुविधाओं की प्रकृति  
धारा 4.1(b)(xiii) के अंतर्गत

सरल क्रमांक	सुविधाओं की प्रकृति	नाम	पता	वर्ष	सहायता का प्रकार	सुविधा की अनुमानित कीमत
1	2	3	4	5	6	7
- लागू नहीं -						

(14) कार्यालय में उपलब्ध जानकारी ( आयटम 6 से संबद्ध )  
धारा 4.1 (b) ( xiv) के अंतर्गत

सरल कं.	श्रेणी	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	2	3	4
<b>(I) स्थापना अनुभाग</b>			
01	संपत्ति पंजी	रजिस्टर	—
02	यात्रा भत्ता पंजी	रजिस्टर	—
03	चिकित्सा बिल पंजी	रजिस्टर	—
04	जी.पी.एफ. पंजी	रजिस्टर	—
05	मोबाइल/ बिल पंजी	रजिस्टर	—
06	आदेश पंजी	रजिस्टर	—
07	उपस्थिति पंजी	रजिस्टर	—
08	कैश बुक पंजी	रजिस्टर	—
09	इम्प्रेस्ट पंजी	रजिस्टर	—
10	लोकल परचेस पंजी	रजिस्टर	—
11	चैक प्राप्ति पंजी	रजिस्टर	—
12	लेखन सामग्री पंजी	रजिस्टर	—
13	आवक पंजी	रजिस्टर	—
14	जावक पंजी	रजिस्टर	—
15	रजिस्ट्री पंजी	रजिस्टर	—
16	यू.ओ.आवक पंजी	रजिस्टर	—
17	यू.ओ.जावक पंजी	रजिस्टर	—
18	गोपनीय आवक पंजी	रजिस्टर	—
19	गोपनीय जावक पंजी	रजिस्टर	—
20	गोपनीय यू.ओ.नोट आवक	रजिस्टर	—

(14) कार्यालय में उपलब्ध जानकारी ( आयटम 6 से संबद्ध )  
धारा 4.1 (b) ( xiv) के अंतर्गत

सरल कं.	श्रेणी	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	2	3	4
<b>(ii) तकनीकी अनुभाग</b>			
01	पद्धति संचालन डाटा-बस वोल्टेज, लाइन लोडिंग, ट्रांसफार्मर लोडिंग (पिछले दो वर्षों की)	उपलब्ध	उपलब्ध





(16) लोक सूचना अधिकारी का पद/कार्य स्थल से संबंधित जानकारी  
धारा 4.1 (b)(xvi) के अंतर्गत  
(दिनांक 01.08.2020 को अद्यतन)

सरल कं.	विवरण	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5
01	नाम	श्री मनोज त्रिपाठी	श्री आर.एस.पाण्डेय	श्री संजय कुलश्रेष्ठ
02	पद नाम	सहायक यंत्री	कार्यपालन अभियंता	मुख्य अभि.(यो.एवं रूपां.)
03	दूरभाष कं.	2702253	2702232	2702132
04	कार्यस्थल एवं पता	कार्यालय मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन ) म0प्र0पॉवर ट्रांस.कं.लि. शक्ति भवन, ब्लाक नंबर - 2, रामपुर, जबलपुर पिन कोड - 482008	कार्यालय मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) म0प्र0पॉवर ट्रांस.कं.लि. शक्ति भवन, ब्लाक नंबर - 2, रामपुर, जबलपुर पिन कोड - 482008	मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) म0प्र0पॉवर ट्रांस.कं.लि. शक्ति भवन, ब्लाक नंबर - 2, रामपुर, जबलपुर पिन कोड - 482008
05	आम नागरिक से मिलने का समय	अपरान्ह 3 से 4 बजे तक	अपरान्ह 3 से 4 बजे तक	अपरान्ह 3 से 4 बजे तक

## (17) कोई अन्य जानकारी

( आम नागरिक की सुविधाओं से संबंधित )  
धारा 4.1(b)(xvii) के अंतर्गत

निरंक